


अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हेतु परिपत्र

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन दिनांक 08.03.2022 अपराह्न 2.00 बजे जयपुर परिसर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। वर्ष 2022 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस हेतु निर्धारित विषय **“एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता जरूरी (Gender equality today for a sustainable tomorrow)”**। इस के अतिरिक्त इस दिवस के उपलक्ष्य में निम्नलिखित कार्यक्रमों का भी आयोजन करने के लिए माननीय कुलपति का मार्गदर्शन एवं अनुमोदन मिला है -

1. प्रत्येक परिसर में शैक्षणिक, गैरशैक्षणिक, आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में कार्यरत महिलाएं, जिन्होंने कोविडकाल में भी अपना उत्कृष्ट योगदान परिसर के सर्वविधकार्यों में दिया हो उनको सम्मान तथा प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु माननीय कुलपति के द्वारा निश्चय किया गया। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक परिसर एवं मुख्यालय से 1 महिला शैक्षणिक (कुल 13 पुरस्कार), 04 शैक्षणिकेतर महिलाओं के लिए तथा 04 आउटसोर्सिंग कर्मचारी महिलाओं के लिए पुरस्कार हेतु नाम घोषित किया जाएगा। अतः प्रत्येक परिसर में एक चयन समिति के माध्यम से उपरि निर्दिष्ट 3 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग से अधिकाधिक 2 नाम तथा उन के द्वारा सम्पादित उत्कृष्ट कार्यविवरण सहित नामित करें। नामित सूची मुख्यालय को ईमेल के माध्यम से womencell@csu.co.in पर दि. 06.03.2022 सायं 5.00 बजे तक प्रेषित करें। मुख्यालय के विशेष समिति द्वारा पुरस्कार हेतु नाम चयनित किए जाएंगे। तथा पुरस्कार की घोषणा 08.03.2022 में की जाएगी। उद्घोषित महिलाओं को विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्रशस्ति पत्र स्मृतिचिह्न आदि से सम्मानित किया जायेगा।
2. प्रत्येक परिसर में प्रत्येक महिला शैक्षणिक, गैरशैक्षणिक, सफाई कर्मचारी एवं बाह्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत महिलाओं को प्रतीक चिह्न के रूप में एक कॉफी मग परिसर निदेशक द्वारा दिया जायेगा। जिस पर निम्नलिखित चित्र अंकित होने चाहिए -
 - केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का logo
 - 75 वें आजादी के अमृत महोत्सव का logo
 - “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” इति Slogan
 - अन्तर्राष्ट्रीयमहिलादिवसः 2022 इति विवरण

इन कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार प्रसार हेतु विश्वविद्यालय एवं परिसरीय स्तर के महिला प्रकोष्ठ (Women Cell) एवं आन्तरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) सम्बन्धित परिसरीय निदेशकों के मार्गदर्शन में सक्रिय भाग ग्रहण करें तथा विश्वविद्यालय के समस्त छात्र एवं प्राध्यापकगण तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी सक्रिय भाग ग्रहण कर आयोजन को सफल बनाए।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है।



(डॉ. अमृता कौर)

संयोजिका, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यसम्पादन हेतु-

1. निदेशक, समस्त परिसर, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. कुलपति कार्यालय।
3. कुसचिव कार्यालय।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की आन्तरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee)।
5. परियोजनाधिकारी - विश्वविद्यालय के पोर्टल में संयोजन हेतु।
6. उप निदेशक (प्रशासन/वित्त/शैक्षणिक), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली।
7. समस्त विभाग, मुख्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली।
8. गार्ड फ़ाइल।